



सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 70]
No. 70]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 15, 1979/मार्च 24, 1900
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 15, 1979/PHALGUNA 24, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

अधिसूचना

सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 15 मार्च, 1979

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 1979

CUSTOMS

सा. का. निं. 230 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, की अधिसूचना सं. 145-सीमा-शुल्क, तारीख 27 जुलाई, 1978 को अधिकांत करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 39 के अन्तर्गत आने वाले पॉलीविनायल क्लोराइड रीजनों को, जब उनका भारत में आयात किया जाए, उन पर उद्घरणिय उस सम्पूर्ण सीमा-शुल्क में छूट देती है जो उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।

यह अधिसूचना 31 अगस्त, 1979 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी।

[सं. 66/फा. सं. 355/6/78-सी. श. 1]

G.S.R. 230(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 145-Customs, dated the 27th July, 1978, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts polyvinyl chloride resins, falling within Chapter 39 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from the whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule.

This notification shall be in force upto and inclusive of the 31st August, 1979.

[No. 66/F. No. 355/6/78-Cus. I]

सा. का. निं. 231 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, 0.02 मि. मी. से 0.04 मि. मी. तक की परास में मोटाई के एलुमिनियम के 97 प्रतिशत से अधिक भारी और सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 76 के अन्तर्गत आने वाली सादी एलुमिनियम

पन्नी को, जब उसका भारत में आयात किया जाए, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण अतिरिक्त शुल्क से इस शर्त पर छूट वेंगी है, कि इसमें अन्तर्विष्ट छूट केवल उन आयातकर्ताओं को लागू होगी जो तकनीकी विकास महानिदेशक द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित प्रभाव का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हैं कि—

(1) आयातकर्ता का औषधियों और औषधियों के विनिर्माण के लिए अनुमोदित कार्यक्रम है; और

(2) इस प्रकार आयातकृत एलुमिनियम पन्नी केवल औषधियों और औषधियों के पैट्टी-पैक करने के लिए प्रयुक्त की जाएगी।

2. यह अधिसूचना 30 जून, 1979 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रभावी रहेगी।

[सं. 67/फा. सं. 353/258/78-सीमा-शुल्क]

जोसेफ डोमिनिक, अव्वर सचिव

G.S.R. 231(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts plain aluminium foil of the thickness of 0.02mm to 0.04mm containing more than 97 per cent of aluminium and falling within Chapter 76 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India from the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the second mentioned Act, subject to the condition that the exemption contained herein shall be applicable only to those importers who produce a certificate issued by the Director General of Technical Development to the effect that—

(i) the importer has an approved programme for the manufacture of drugs and medicines; and

(ii) the aluminium foil thus imported will be used only for strip-packing of drugs and medicines.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 30th June, 1979.

[No. 67/F. No. 355/258/78-Cus. II]

JOSEPH DOMINIC, Under Secy.